



M 7885

Reg. No. : .....

Name : .....

**II Semester B.Com./B.B.A./B.B.M./B.B.A.T.T.M. Degree**

**Examination, May 2010**

**HINDI (Common)**

**Course No. 2 : 2A08 – I HIN : Communicative and Applied Hindi**

Time: 3 Hours

Total Weightage : 30

निर्देश : प्रस्तुत अवतरण पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

(Weightage 1×4=4)

जब तक सरकार और उसके अधिकारी ठीक आचरण नहीं करेंगे, तब तक जनता प्रदर्शन करती ही रहेगी । कानून हाथ में लेती ही रहेगी । भाई साहब, इस नौकरशाही ने, शासन की इस भूख ने, आपको जनता से दूर कर दिया है ।

1. प्रस्तुत अवतरण में से संज्ञा शब्दों को चुनकर लिखिए ।
2. सर्वनाम शब्दों को चुनकर लिखिए ।
3. विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए ।
4. क्रिया शब्दों को चुनकर उनके काल बताइए ।

निर्देश : समानार्थी अंग्रेज़ी शब्द लिखिए :

(Weightage 1×2 bunches=2)

5. क) परिभाषा

ख) आवेदन पत्र

ग) संग्रहालय

घ) साबुन ।

6. क) छात्रावास

ख) राजनीति

ग) नगरपालिका

घ) आदेश ।

P.T.O.



निर्देश : समानार्थी हिन्दी शब्द लिखिए ।

(Weightage 1×2 bunches=2)

7. क) Award

ख) National Seminar

ग) Account

घ) Fever.

8. क) Principal

ख) Cash

ग) Chairman

घ) Apple.

निर्देश : किसी एक विषय पर निबंध लिखिए ।

(Weightage 4×1=4)

9. राजनीति के घटते मूल्य ।

10. प्रवासी भारतीयों की दिक्कतें ।

11. आतंकवाद ।

निर्देश : किसी एक खंड का अंग्रेज़ी या मलयालम में अनुवाद कीजिए ।

(Weightage 4×1=4)

12. हिन्दी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द का जन्म काशी के पास लमही गाँव में हुआ था । उनका असली नाम धनपतराय था । पढ़ाई के बाद वे शिक्षा विभाग में निरीक्षक बने । फिर उन्होंने गाँधीजी से प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी । पहले वे उर्दू में लिखते थे । उनके उपन्यासों और कहानियों में ग्रामीण जीवन का सच्चा चित्र मिलता है । जमीन्दारों और महाजनों के शोषण से पीड़ित ग्रामीण किसानों की अवस्था उनकी रचनाओं का विषय है । दर्जनों उपन्यासों के अलावा उन्होंने तीन सौ से अधिक कहानियाँ भी लिखी हैं ।

13. सुमित्रानन्दन पंत का जन्म उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा नामक स्थान में हुआ था । पंत प्रकृति और सौंदर्य के कवि हैं । वे गाँधीवाद और अरविन्द दर्शन से प्रभावित हुए । खड़ीबोली कविता को माधुर्य उन्होंने ही प्रदान किया है । गद्य के क्षेत्र में पंत जी ने नाटक, कहानी और आत्मकथा भी लिखी हैं । चिदंबरा पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला । भारत सरकार ने उनको पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया । पंत जी को 'प्रकृति का सुकुमार कवि' कहा जाता है । उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था ।





निर्देश : किसी एक खंड का हिन्दी में अनुवाद कीजिए ।

(Weightage 4×1=4)

14. Vidyasagar was a very generous and charitable man. From his earliest years he helped the poor and needy to the utmost of his power. As a boy at school he often gave the food he had to eat to another boy who had none. If one of his school-fellows fell ill, little Eashwar would go to his house, sit by his bed and nurse him. His name became a household word in Bengal. Rich and poor, high and low, all liked him alike. No beggar ever asked him for relief in vain.
15. In order to keep our bodies strong and healthy we should take regular exercise. Foot-ball, cricket, running, jumping, walking are almost useful for keeping us in good health. And when we enjoy a game, we get pleasure as well as health from it. So you should all take part in the games that are played at school, for it is as much our duty to keep our bodies strong as it is to fill our minds with knowledge. If our bodies are weak and sickly our minds too are likely to be sickly and unhealthy.

निर्देश : निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दस वाक्यों में लिखिए ।

(Weightage 2×1=2)

16. कालेज में अपनी पढ़ाई के संबंध में पुत्र का पिताजी के साथ वार्तालाप तैयार कीजिए ।

निर्देश : किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

(Weightage 4×2=8)

17. आपके घर में चोरी होने की बात सूचित करते हुए क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक के नाम एक शिकायत पत्र लिखिए ।
18. मलबार वैद्यशाला, मलप्पुरम ने एक नये किस्म का तेल प्रस्तुत किया है । उसके प्रचार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए ।
19. अपने मकान का बीमा कराने के लिए ओरियंटल इन्श्यूरन्स कंपनी, मुंबई को पत्र लिखिए ।
-